

कृषि विज्ञान केन्द्र घातखेड, अमरावती (महाराष्ट्र) द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र के साथ वन विज्ञान केन्द्र नेटवर्किंग के तहत दिनांक 19 फरवरी, 2016 को आयोजित किसान मेले की रिपोर्ट

उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर (म.प्र.) ने कृषि विज्ञान केन्द्र (के.वी.के.), घातखेड, अमरावती (महाराष्ट्र) द्वारा वन विज्ञान केन्द्र (वी.वी.के., टी.एफ.आर.आई., आई.सी.एफ.आर.ई.) एवं कृषि विज्ञान केन्द्र (के.वी.के., आई.सी.ए.आर) के संयुक्त कार्य तथा नेटवर्किंग कार्यक्रम अन्तर्गत "शेतकरी मेळावा" अवसर पर दिनांक 19.02.2016 को आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण-सह-प्रदर्शन कार्यक्रम में भाग लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अमरावती के प्रगतिशील किसान सहित जिले के 7 खण्ड के 35 ग्राम के लगभग 363 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में डॉ. एस.आर. सरदार, कृषि संयुक्त निदेशक अमरावती संभाग, प्राचार्य, खाद्य एवं प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, अमरावती, कृषि महाविद्यालय के प्राचार्य, के.वी.के. अमरावती के समन्वयक डॉ० कळस्कर, महाविद्यालयों के प्राध्यपक जैसे अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

नेटवर्किंग कार्यक्रमान्तर्गत टी.एफ.आर.आई. के विस्तार प्रभाग ने समन्वयन किया, डॉ० ननिता बेरी, वैज्ञानिक -'ई', कृषि वानिकी प्रभाग एवं डॉ० ममता पुरोहित, अनुसंधान अधिकारी, वन विस्तार प्रभाग ने कार्यक्रम में भाग लिया तथा उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान का प्रतिनिधित्व किया।

टी.एफ.आर.आई. की वैज्ञानिक -'ई', डॉ. ननिता बेरी ने प्रतिभागियों को टी.एफ.आर.आई. की ओर से संबोधित किया और अपने संबोधन में उन्होंने उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों को क्षेत्र के मृदा संरक्षण एवं भूजल स्तर में सुधार के लिए उपयुक्त वृक्ष उगाने के लिए आग्रह किया। फसल के सतत उत्पादन के लिए कृषिवानिकी के महत्व तथा भूमि के उपयोग के विविधीकरण पर बल देते हुए उन्होंने इस क्षेत्र स्थल के लिए विनिर्दिष्ट प्रजातियों के वृक्ष एवं कृषि वानिकी के उपयुक्त मॉडल भी सुझाये।

प्रशिक्षण सत्र के दौरान, डॉ. ममता पुरोहित, अनुसंधान अधिकारी, वन विस्तार प्रभाग, टी.एफ.आर.आई. ने संस्थान की गतिविधियों पर प्रकाश डाला और वन विस्तार गतिविधियों की सामग्री प्रदर्शित की। वानिकी के विविध विषय पर उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर द्वारा मराठी में प्रकाशित वानिकी विस्तार सामग्री प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों में वितरित की गई एवं वानिकी से संबंधित उनके जवाबों के समाधान कारक उत्तर दिये गये।

एक नजर में प्रशिक्षण

